



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2020
कार्तिक 26, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश

संख्या 4/770-2020-4-118(बलरामपुर)-2014
लखनऊ, 17 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-414

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद बलरामपुर की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/224-2015-4-118(बलरामपुर)-2014, दिनांक 28 जनवरी, 2015 में विकास खण्ड तुलसीपुर की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्द्वारा स्थापित करती हूँ।

सारिणी

जनपद का नाम—बलरामपुर

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	तुलसीपुर	महोदव जमुनी	महादेव जमुनी	1	तुलसीपुर	महोदव जमुनी	महादेव जमुनी
2	तुलसीपुर	लालनगर सिपाहिया	लालनगर सिपाहिया	2	तुलसीपुर	लालनगर सिपाहिया	लालनगर सिपाहिया
3	तुलसीपुर	देवनगर	देवनगर	3	तुलसीपुर	देवनगर	देवनगर
4	तुलसीपुर	भंगहाकला	भंगहाकला	4	तुलसीपुर	भंगहाकला	भंगहाकला
			नन्दमहरा				नन्दमहरा
			नरायनपुर झिंगहा				नरायनपुर झिंगहा
5	तुलसीपुर	गढ़वा	गढ़वा	5	तुलसीपुर	गढ़वा	गढ़वा
6	तुलसीपुर	प्रेमनगर	प्रेमनगर	6	तुलसीपुर	प्रेमनगर	प्रेमनगर
7	तुलसीपुर	गनेशपुर	गनेशपुर	7	तुलसीपुर	गनेशपुर	गनेशपुर
8	तुलसीपुर	खैरा	खैरा	8	तुलसीपुर	खैरा	खैरा
9	तुलसीपुर	रजवापुर	रजवापुर	9	तुलसीपुर	रजवापुर	रजवापुर
10	तुलसीपुर	नवानगर	नवानगर	10	तुलसीपुर	नवानगर	नवानगर
11	तुलसीपुर	चौहत्तर कलां	चौहत्तर कलां	11	तुलसीपुर	चौहत्तर कलां	चौहत्तर कलां
12	तुलसीपुर	नैकिनिया	नैकिनिया	12	तुलसीपुर	नैकिनिया	नैकिनिया
13	तुलसीपुर	बेलीखुर्द	बेलीखुर्द	13	तुलसीपुर	बेलीखुर्द	बेलीखुर्द
14	तुलसीपुर	भगवानपुरतनपुर	भगवानपुरतनपुर	14	तुलसीपुर	भगवानपुरतनपुर	भगवानपुरतनपुर
15	तुलसीपुर	बनकटवा कलां	बनकटवा कलां	15	तुलसीपुर	बनकटवा कलां	बनकटवा कलां
16	तुलसीपुर	बेलीकलां	बेलीकलां	16	तुलसीपुर	बेलीकलां	बेलीकलां
17	तुलसीपुर	रेहरा	रेहरा	17	तुलसीपुर	रेहरा	रेहरा
			रतनपुरअजबनगर				रतनपुरअजबनगर
18	तुलसीपुर	कल्यानपुर	कल्यानपुर	18	तुलसीपुर	कल्यानपुर	कल्यानपुर
19	तुलसीपुर	पुरनपुर अर्जुनपुर	पुरनपुर अर्जुनपुर	19	तुलसीपुर	पुरनपुर अर्जुनपुर	पुरनपुर अर्जुनपुर
20	तुलसीपुर	पिपरहवा विशुनपुर	पिपरहवा विशुनपुर	20	तुलसीपुर	पिपरहवाविशुनपुर	पिपरहवाविशुनपुर
21	तुलसीपुर	ओड़ाझारकला	ओड़ाझारकला	21	तुलसीपुर	ओड़ाझारकला	ओड़ाझारकला
22	तुलसीपुर	गँड़हवा	गँड़हवा	22	तुलसीपुर	गँड़हवा	गँड़हवा
23	तुलसीपुर	तुलसीपुर देहात	तुलसीपुर देहात	23	तुलसीपुर	तुलसीपुर देहात	तुलसीपुर देहात

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
24	तुलसीपुर	देवीपाटन	देवीपाटन		तुलसीपुर	ग्राम पंचायत देवीपाटन के राजस्व ग्राम देवीपाटन का सम्पूर्ण भाग उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, संख्या 2847/नौ-1-2019-11टी0ए0-17टी0सी0, लखनऊ, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा नगर पंचायत तुलसीपुर में समाहित।	
25	तुलसीपुर	शीतलापुर	शीतलापुर	24	तुलसीपुर	शीतलापुर	शीतलापुर
26	तुलसीपुर	परसपुर करौंदा	परसपुर करौंदा	25	तुलसीपुर	परसपुर करौंदा	परसपुर करौंदा
27	तुलसीपुर	चैनपुरबड़ेरिया	चैनपुरबड़ेरिया	26	तुलसीपुर	चैनपुरबड़ेरिया	चैनपुरबड़ेरिया
28	तुलसीपुर	सोनपुर धुतकहवा	सोनपुर धुतकहवा	27	तुलसीपुर	सोनपुर धुतकहवा	सोनपुर धुतकहवा
29	तुलसीपुर	गुलरिहा हिसामपुर	गुलरिहा हिसामपुर	28	तुलसीपुर	गुलरिहाहिसामपुर	गुलरिहाहिसामपुर
30	तुलसीपुर	फतेहनगरा	फतेहनगरा	29	तुलसीपुर	फतेहनगरा	फतेहनगरा
31	तुलसीपुर	गौरामाफी	गौरामाफी	30	तुलसीपुर	गौरामाफी	गौरामाफी
32	तुलसीपुर	भुजेहरा	भुजेहरा	31	तुलसीपुर	भुजेहरा	भुजेहरा
33	तुलसीपुर	पुरनपुर	पुरनपुर	32	तुलसीपुर	पुरनपुर	पुरनपुर
34	तुलसीपुर	मैनहवा	मैनहवा	33	तुलसीपुर	मैनहवा	मैनहवा
35	तुलसीपुर	धनौड़ा	धनौड़ा	34	तुलसीपुर	धनौड़ा	धनौड़ा
36	तुलसीपुर	साखीरेत	साखीरेत	35	तुलसीपुर	साखीरेत	साखीरेत
37	तुलसीपुर	बरगदही	बरगदही	36	तुलसीपुर	बरगदही	बरगदही
38	तुलसीपुर	बुडन्तपुर	बुडन्तपुर	37	तुलसीपुर	बुडन्तपुर	बुडन्तपुर
39	तुलसीपुर	पूरेछीटन	पूरेछीटन	38	तुलसीपुर	पूरेछीटन	पूरेछीटन
40	तुलसीपुर	बेला	बेला	39	तुलसीपुर	बेला	बेला
			किटूरा				किटूरा
41	तुलसीपुर	मिर्जापुर	मिर्जापुर	40	तुलसीपुर	मिर्जापुर	मिर्जापुर
42	तुलसीपुर	पटोहाकोट	पटोहाकोट	41	तुलसीपुर	पटोहाकोट	पटोहाकोट
43	तुलसीपुर	रूपनगर	रूपनगर	42	तुलसीपुर	रूपनगर	रूपनगर
44	तुलसीपुर	लालबोझी	लालबोझी	43	तुलसीपुर	लालबोझी	लालबोझी
			जुगलीकलां				जुगलीकलां
45	तुलसीपुर	महादेवगोसांई	महादेवगोसांई	44	तुलसीपुर	महादेवगोसांई	महादेवगोसांई
46	तुलसीपुर	औरहिया	औरहिया	45	तुलसीपुर	औरहिया	औरहिया
47	तुलसीपुर	दांदव	दांदव	46	तुलसीपुर	दांदव	दांदव

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
48	तुलसीपुर	महदेईया	महदेईया	47	तुलसीपुर	महदेईया	महदेईया
			रामपुर				रामपुर
49	तुलसीपुर	खैरहनिया	खैरहनिया	48	तुलसीपुर	खैरहनिया	खैरहनिया
50	तुलसीपुर	मूडाडीह	मूडाडीह	49	तुलसीपुर	मूडाडीह	मूडाडीह
51	तुलसीपुर	जहानडीह	जहानडीह	50	तुलसीपुर	जहानडीह	जहानडीह
52	तुलसीपुर	साहेबनगर	साहेबनगर	51	तुलसीपुर	साहेबनगर	साहेबनगर
53	तुलसीपुर	शिवचरनडीह	शिवचरनडीह	52	तुलसीपुर	शिवचरनडीह	शिवचरनडीह
54	तुलसीपुर	परसिया कलां	परसिया कलां	53	तुलसीपुर	परसिया कलां	परसिया कलां
55	तुलसीपुर	भगवानपुर	भगवानपुर	54	तुलसीपुर	भगवानपुर	भगवानपुर
56	तुलसीपुर	जयनगरा	जयनगरा	55	तुलसीपुर	जयनगरा	जयनगरा
57	तुलसीपुर	महराजगंज	महराजगंज	56	तुलसीपुर	महराजगंज	महराजगंज
58	तुलसीपुर	विजयीडीह	विजयीडीह	57	तुलसीपुर	विजयीडीह	विजयीडीह
59	तुलसीपुर	रामगढ़मैटहवा	रामगढ़मैटहवा	58	तुलसीपुर	रामगढ़मैटहवा	रामगढ़मैटहवा
60	तुलसीपुर	लोहेपनिया	लोहेपनिया	59	तुलसीपुर	लोहेपनिया	लोहेपनिया
61	तुलसीपुर	लैबुडवा	लैबुडवा	60	तुलसीपुर	लैबुडवा	लैबुडवा
62	तुलसीपुर	लालपुर लैबुडडी	लालपुर लैबुडडी	61	तुलसीपुर	लालपुर लैबुडडी	लालपुर लैबुडडी
63	तुलसीपुर	कनहरा	कनहरा	62	तुलसीपुर	कनहरा	कनहरा
64	तुलसीपुर	परसियागौरी	परसियागौरी	63	तुलसीपुर	परसियागौरी	परसियागौरी
65	तुलसीपुर	नन्हुवापुर	नन्हुवापुर	64	तुलसीपुर	नन्हुवापुर	नन्हुवापुर
66	तुलसीपुर	सुगानगर	सुगानगर	65	तुलसीपुर	सुगानगर	सुगानगर
67	तुलसीपुर	रानीजोत	रानीजोत	66	तुलसीपुर	रानीजोत	रानीजोत
68	तुलसीपुर	पूरेबक्स	पूरेबक्स	67	तुलसीपुर	पूरेबक्स	पूरेबक्स
69	तुलसीपुर	मुडिला	मुडिला	68	तुलसीपुर	मुडिला	मुडिला
70	तुलसीपुर	गोपालीपुर	गोपालीपुर	69	तुलसीपुर	गोपालीपुर	गोपालीपुर
71	तुलसीपुर	बालापुर	बालापुर	70	तुलसीपुर	बालापुर	बालापुर
72	तुलसीपुर	नौव्या	नौव्या	71	तुलसीपुर	नौव्या	नौव्या
73	तुलसीपुर	नेवाजपुर	नेवाजपुर	72	तुलसीपुर	नेवाजपुर	नेवाजपुर
74	तुलसीपुर	शिवानगर	शिवानगर	73	तुलसीपुर	शिवानगर	शिवानगर
75	तुलसीपुर	हडपुर जनकपुर	हडपुर जनकपुर	74	तुलसीपुर	हडपुर जनकपुर	हडपुर जनकपुर
76	तुलसीपुर	मोहनपुर दयालीडीह	मोहनपुर दयालीडीह	75	तुलसीपुर	मोहनपुर दयालीडीह	मोहनपुर दयालीडीह
77	तुलसीपुर	महादेवहरिहरनगर	महादेवहरिहरनगर	76	तुलसीपुर	महादेवहरिहरनगर	महादेवहरिहरनगर
78	तुलसीपुर	हरहटा	हरहटा	77	तुलसीपुर	हरहटा	हरहटा

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
79	तुलसीपुर	विशुनपुर खैरहनिया	विशुनपुर खैरहनिया	78	तुलसीपुर	विशुनपुर खैरहनिया	विशुनपुर खैरहनिया
80	तुलसीपुर	जददापुर	जददापुर	79	तुलसीपुर	जददापुर	जददापुर
81	तुलसीपुर	सुखरामपुर	सुखरामपुर	80	तुलसीपुर	सुखरामपुर	सुखरामपुर
82	तुलसीपुर	रमवापुर	रमवापुर	81	तुलसीपुर	रमवापुर	रमवापुर
83	तुलसीपुर	लौकहवा	लौकहवा	82	तुलसीपुर	लौकहवा	लौकहवा
84	तुलसीपुर	सिंगाही	सिंगाही	83	तुलसीपुर	सिंगाही	सिंगाही
85	तुलसीपुर	भंभरी	भंभरी	84	तुलसीपुर	भंभरी	भंभरी
86	तुलसीपुर	गुलरिहा	गुलरिहा	85	तुलसीपुर	गुलरिहा	गुलरिहा
87	तुलसीपुर	बदलपुर	बदलपुर	86	तुलसीपुर	बदलपुर	बदलपुर
88	तुलसीपुर	कोहडौरा	कोहडौरा	87	तुलसीपुर	कोहडौरा	कोहडौरा
89	तुलसीपुर	बरदहवा	बरदहवा	88	तुलसीपुर	बरदहवा	बरदहवा
90	तुलसीपुर	दुंदरा	दुंदरा	89	तुलसीपुर	दुंदरा	दुंदरा
91	तुलसीपुर	पचपकडी	पचपकडी	90	तुलसीपुर	पचपकडी	पचपकडी
92	तुलसीपुर	बसन्तपुर	बसन्तपुर	91	तुलसीपुर	बसन्तपुर	बसन्तपुर
93	तुलसीपुर	सुदर्शनजोत	सुदर्शनजोत	92	तुलसीपुर	सुदर्शनजोत	सुदर्शनजोत
94	तुलसीपुर	मोहनापुर	मोहनापुर	93	तुलसीपुर	मोहनापुर	मोहनापुर
95	तुलसीपुर	कन्दैला	कन्दैला	94	तुलसीपुर	कन्दैला	कन्दैला
96	तुलसीपुर	अमरहवा	अमरहवा	95	तुलसीपुर	अमरहवा	अमरहवा
97	तुलसीपुर	सिकटिहवा	सिकटिहवा	96	तुलसीपुर	सिकटिहवा	सिकटिहवा
98	तुलसीपुर	लक्ष्मनपुर	लक्ष्मनपुर	97	तुलसीपुर	लक्ष्मनपुर	लक्ष्मनपुर
99	तुलसीपुर	सेखुईनिया	सेखुईनिया	98	तुलसीपुर	सेखुईनिया	सेखुईनिया
100	तुलसीपुर	बडगौ	बडगौ	99	तुलसीपुर	बडगौ	बडगौ
101	तुलसीपुर	ठकुरापुर	ठकुरापुर	100	तुलसीपुर	ठकुरापुर	ठकुरापुर
			साधौपुर				साधौपुर

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/224/2015-4/118(बलरामपुर)-2014, दिनांक 28 जनवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 497 राजपत्र-2020-(1048) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 44 सा० पंचायती राज-2020-(1049)132 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।